



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 वैशाख, 1941 (श०)

संख्या- 383 राँची, मंगलवार, 7 मई, 2019 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

-----  
अधिसूचना

2 मई, 2019

संख्या-13/शक्ति प्र०-03/2014 का० 3475-- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक 54 दिनांक 27.04.2019 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 में, अनुबद्ध अनुसूची के अनुरूप, सेक्टर पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त 88 पदाधिकारियों/कर्मचारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-21 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति की तिथि से उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अनिल कुमार सिन्हा,  
सरकार के उप सचिव।